



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

16 अग्रहायण 1933 (श0)  
(सं0 पटना 739) पटना, बुधवार, 7 दिसम्बर 2011

---

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना  
7 दिसम्बर 2011

सं० 3/एच0-04/2011-3713-सा०—बिहार—राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि वर्ष, 2012 में राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालय में, संलग्न अनुसूची-1 में उल्लेखित पर्व/अवसरों पर, सामान्य अवकाश रहेगा।

2. अनुसूची-1 में उल्लेखित सामान्य अवकाशों के अतिरिक्त, वर्ष 2012 में राज्य सरकार के कर्मी संलग्न अनुसूची-2 में उल्लेखित ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों में से पूरे वर्ष में किन्हीं तीन अवकाशों (अधिकतम तीन) का उपभोग कर सकेंगे।

3. भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 20-25/26/पर्व-1, दिनांक 08 जून 1957 के साथ पठित निगोशिबुल इन्स्ट्रुमेन्ट्स ऐक्ट, 1881 की धारा-25 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत, उक्त स्पष्टीकरण में सार्वजनिक अवकाश के रूप में परिभाषित रविवारों के अतिरिक्त संलग्न अनुसूची-3 एवं अनुसूची-4 में उल्लेखित पर्व/अवसरों पर, वर्ष 2012 में बिहार राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
नवीन चन्द्र झा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुसूची-1  
बिहार सरकार के अधीन सभी कार्यालयों और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए  
वर्ष 2012 में सामान्य अवकाश।

क्र०	पर्व/अवसर/अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1.	चेहल्लुम	1	15 जनवरी	20 सफर	रविवार
2.	गणतंत्र दिवस	1	26 जनवरी	-----	वृहस्पतिवार
3.	वसंत पंचमी	1	28 जनवरी	माघ शुक्ल पंचमी	शनिवार
4.	हजरत मुहम्मद साहब का जन्म दिवस	1	5 फरवरी	12 रवीउल औव्वल	रविवार
5.	महाशिवरात्रि	1	20 फरवरी	फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी	सोमवार
6.	होली	2	08 एवं 09 मार्च	फाल्गुन पूर्णिमा/चैत्र प्रतिपदा	वृहस्पतिवार एवं शुक्रवार
7.	बिहार दिवस	1	22 मार्च	-	वृहस्पतिवार
8.	राम नवमी	1	01 अप्रील	चैत्र शुक्ल नवमी	रविवार
9.	गुड फ्राइडे	1	06 अप्रील	-----	शुक्रवार
10.	भीमराव अम्बेदकर जन्म दिवस	1	14 अप्रील	-----	शनिवार
11.	वीर कुँवर सिंह जयंती	1	23 अप्रील	-----	सोमवार
12.	जानकी नवमी	1	30 अप्रील	वैसाख शुक्ल नवमी	सोमवार
13.	मई दिवस (श्रम दिवस)	1	01 मई	-----	मंगलवार
14.	शब-ए-बरात	1	5 जुलाई	15 शाबान	वृहस्पतिवार
15.	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी	1	10 अगस्त	प्रथम भाद्र कृष्ण अष्टमी	शुक्रवार
16.	स्वतंत्रता दिवस	1	15 अगस्त	-----	बुधवार
17.	ईद-उल-फितर (ईद)	1	19 अगस्त	01 शौव्वाल	रविवार
18.	महात्मा गाँधी जयंती	1	2 अक्टूबर	-----	मंगलवार
19.	दुर्गा पूजा	4	21, 22, 23 एवं 24 अक्टूबर	आश्विन शुक्ल सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं दशमी	रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार
20.	ईद-उज-जोहा (बकरीद)	1	26 अक्टूबर	10 जिल हिज्जा	शुक्रवार
21.	दीपावली	1	13 नवम्बर	कार्तिक अमावस्या	मंगलवार
22.	चित्रगुप्त पुजा/भाई दूज	1	15 नवम्बर	कार्तिक शुक्ल द्वितीया	वृहस्पतिवार
23.	छठ	2	19 एवं 20 नवम्बर	कार्तिक शुक्ल षष्ठी एवं सप्तमी	सोमवार एवं मंगलवार
24.	मोहर्रम	1	24 नवम्बर	10 मोहर्रम	शनिवार
25.	क्रिसमस-डे	1	25 दिसम्बर	-----	मंगलवार

- टिप्पणी—(1) चाँद दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।  
 (2) राज्य सरकार के अधीन सचिवालय विभागों एवं निदेशालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली पूर्ववत् लागू रहेगी।  
 (3) क्षेत्रीय कार्यालयों (प्रमण्डलीय आयुक्तों के कार्यालय, मुख्य अभियंताओं के कार्यालय आदि सहित) में 6 (छह) दिवसीय कार्य सप्ताह वाली पूर्व की प्रणाली लागू रहेगी।  
 (4) वर्ष 2012 में गुरु गोविन्द सिंह का जन्म दिवस नहीं पड़ रहा है।

**अनुसूची-2**  
**वर्ष 2012 के लिए राज्य सरकार के कर्मियों के लिए ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों की सूची।**  
**(पूरे वर्ष में इनमें से किन्हीं तीन का उपभोग किया जा सकता है।)**

क्र०	पर्व/अवसर/अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/ हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1	नव वर्ष	1 दिन	1 जनवरी	-----	रविवार
2	मकर संक्रांति	1 दिन	14 जनवरी	माघ कृष्ण पंचमी	शनिवार
3.	संत रविदास जयंती	1 दिन	7 फरवरी	माघी पूर्णिमा	मंगलवार
4.	होली	1 दिन	10 मार्च	चैत्र कृष्ण द्वितीया	शनिवार
5.	महावीर जयंती	1 दिन	5 अप्रील	चैत्र शुक्ल त्रयोदशी	वृहस्पतिवार
6	बुद्ध पूर्णिमा/बुद्ध जयंती	1 दिन	6 मई	वैशाख शुक्ल पूर्णिमा	रविवार
7	अंतिम श्रावणी सोमवार	1 दिन	30 जुलाई	श्रावण शुक्ल द्वादशी	सोमवार
8	रक्षाबंधन	1 दिन	2 अगस्त	श्रावण शुक्ल पूर्णिमा	वृहस्पतिवार
9	रमजान का अंतिम जुम्मा	1 दिन	17 अगस्त	29 रमजान	शुक्रवार
10	ईद-उल-फितर (ईद)	1 दिन	20 अगस्त	02 शौव्वाल	सोमवार
11.	विश्वकर्मा पूजा	1 दिन	17 सितम्बर	-	सोमवार
12.	अनन्त चतुर्दशी	1 दिन	29 सितम्बर	द्वितीय भाद्र शुक्ल चतुर्दशी	शनिवार
13.	दुर्गा पूजा कलश-स्थापन	1 दिन	16 अक्टूबर	आश्विन शुक्ल प्रतिपदा	मंगलवार
14.	दुर्गा पूजा	1 दिन	25 अक्टूबर	आश्विन शुक्ल एकादशी	वृहस्पतिवार
15	ईद-उज-जोहा (बकरीद)	1 दिन	27 अक्टूबर	11 जिल हिज्जा	शनिवार
16	छठ पूजा (खरना)	1 दिन	18 नवम्बर	कार्तिक शुक्ल पंचमी	रविवार
17	गुरु नानक जयंती	1 दिन	28 नवम्बर	कार्तिक पूर्णिमा	बुधवार
18	मोहर्रम	1 दिन	25 नवम्बर	11 मोहर्रम	रविवार
19	क्रिसमस-ईव	1 दिन	24 दिसम्बर	-----	सोमवार

टिप्पणी—(1) चाँद दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।

(2) नववर्ष, मोहर्रम (11 मोहर्रम), बुद्ध पूर्णिमा/बुद्ध जयंती, छठ पर्व (खरना), रविवार को।

(3) उपरलिखित ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों में से पूरे वर्ष में किन्ही तीन अवकाशों (अधिकतम तीन) का उपभोग किया जा सकेगा। इस हेतु कर्मियों को पूर्वानुमोदन लेना होगा और ऐसा अनुमोदन सामान्यतः आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा दिया जा सकेगा। सरकारी कामकाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऐसे अवकाश की मंजूरी दी जा सकेगी।

**अनुसूची-3**  
वर्ष 2012 के लिए बिहार राज्य में एन0 आई0 ऐक्ट, 1881 के तहत अवकाश।

क्रमांक	पर्व/अवसर/अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1	गणतंत्र दिवस	1	26 जनवरी	-----	बृहस्पतिवार
2	होली	1	08 मार्च	-----	बृहस्पतिवार
3	बिहार दिवस	1	22 मार्च	-----	बृहस्पतिवार
4	रामनवमी	1	1 अप्रैल	चैत्र शुक्ल/ नवमी	रविवार
5	गुड फ्राइडे	1	06 अप्रैल	-----	शुक्रवार
6	भीमराव अम्बेदकर जयंती	1	14 अप्रैल	-----	शनिवार
7	मई दिवस (श्रम दिवस)	1	1 मई	-----	मंगलवार
8	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी	1	10 अगस्त	प्रथम भाद्र कृष्ण अष्टमी	शुक्रवार
9	स्वतंत्रता दिवस	1	15 अगस्त	-----	बुधवार
10	ईद-उल-फितर (ईद)	1	19 अगस्त	01 शौवाल	रविवार
11	महात्मा गाँधी जयंती	1	2 अक्टूबर	-----	मंगलवार
12	दुर्गा पूजा	2	23 एवं 24 अक्टूबर	आश्विन शुक्ल नवमी एवं दशमी	मंगलवार एवं बुधवार
13	ईद-उज-जोहा (बकरीद)	1	26 अक्टूबर	10 जिल हिज्जा	शुक्रवार
14	दीपावली	1	13 नवम्बर	कार्तिक अमावस्या	मंगलवार
15	छठ पूजा	2	19 एवं 20 नवम्बर	कार्तिक शुक्ल षष्ठी/सप्तमी	सोमवार एवं मंगलवार
16	मोहर्रम	1	24 नवम्बर	10 मोहर्रम	शनिवार
17	क्रिसमस-डे	1	25 दिसम्बर	-----	मंगलवार

टिप्पणी- (1) चाँद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।

**अनुसूची-4**  
वर्ष 2012 में एन0 आई0 ऐक्ट, 1881 के तहत बैंक खाता बन्दी अवकाश।

क्र०	पर्व/अवसर/अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
I	II	III	IV	V	VI
1	बैंक खाता की वार्षिक बंदी	1 दिन	2 अप्रैल	-----	सोमवार
2	बैंक खाता की अर्द्धवार्षिक बंदी	1 दिन	1 अक्टूबर	-----	सोमवार

- नोट:-1. 1 अप्रैल को रविवार तथा रामनवमी का सार्वजनिक अवकाश पड़ने के कारण बैंक खाता की वार्षिक बंदी के लिए 2 अप्रैल को अवकाश घोषित किया जाता है।  
2. 30 सितम्बर रविवार के कारण बैंक खाता की अर्द्धवार्षिक बंदी के लिए 1 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया जाता है।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 739-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>